



प्रेस नोट

दिनांक 05.06.2022

जनपद अम्बेडकरनगर-थाना इब्राहिमपुर पुलिस टीम द्वारा दो गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 कुन्तल प्रतिबन्धित मांस, 03 अदद मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त अन्य उपकरण किए बरामद।

दिनांक 04.06.2022 को थाना इब्राहिमपुर पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रात्रि गस्त तथा तलाश वांछित अभियुक्त में इल्लिफातगंज चौराहा के पास मौजूद थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम नैपुरा मांझा सरयू नदी के तट के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा एक गौ वंश को गोली मार कर काटा जा रहा है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तथा जनपद कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए प्रयाप्त फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो कुछ मोटरसाइकिल की लाइटें दिखाई दी जिन्हे टॉर्च के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपने आप को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया व उनके कुछ अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम **01.** आलमीन पुत्र अब्दुल कादिर निवासी चमनगंज कस्बा इल्लिफातगंज थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर **02.** शोएब पुत्र खुर्शीद आलम निवासी कस्बा गोसाईगंज थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या बताया तथा इनके कब्जे से 05 कुन्तल प्रतिबन्धित मांस, 03 अदद मोटरसाइकिल, 03 अदद चाकू, 02 अदद बांका, 02 अदद ठेहा, 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अन्य विवरण निम्न है –

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आलमीन पुत्र अब्दुल कादिर निवासी चमनगंज कस्बा इल्लिफातगंज थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
02. शोएब पुत्र खुर्शीद आलम निवासी कस्बा गोसाईगंज थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या ।

विवरण बरामदगी-

01. 05 कुन्तल प्रतिबन्धित मांस
02. 03 अदद मोटरसाइकिल
03. 03 अदद चाकू
04. 02 अदद बांका
05. 02 अदद ठेहा
06. 02 अदद खोखा कारतूस
07. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

मुठभेड़ स्थल - नैपुरा मांझा

मुठभेड़ दिनांक - 04.06.2022

समय - 19.45

विवरण आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-114/2022 धारा-3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर ।
02. मु0अ0सं0-115/2022 धारा- 307 , 34 भादवि थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
03. मु0अ0सं0- 116/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01-थानाध्यक्ष इब्राहिमपुर मय फोर्स